



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/E/21/00410

दिनांक: 26 October, 2021

SHRI SAGAR GUPTA,
DGCA OPP. SAFDARJUNG AIRPORT,
NEW DELHI-110003

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 27 September, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में बांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 26/10/21

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request (00410) of Shri Sagar Gupta, Delhi

Sl.No.	Query:	Reply:
1	No. of students qualified for interview/GD category wise.	The recruitment process is yet to be completed.
2	Provide Note sheet/correspondence of the file in which the matter was dealt.	
3	Name along with category of those who have qualified for interview/GD with marks like UPSC/SSC disclose.	
4	Highest marks and the lowest marks of the candidates who have qualified for the interview/GD (Category wise).	
5	Policy of PGCIL for extension of joining on personal or any grounds.	
6	If no policy, provide details (noting and correspondence) of any precedent where such extension was allowed along with the time of extension and how many time the extension was allowed.	
7	Transfer policy of AOT-CS, if any.	The position of Assistant Trainee-Company Secretary is a trainee level post and as such does not come under the purview of any extent transfer policy.
8	Perquisites at the post of AOT-CS	Information regarding Basic Pay and Perks of Assistant Officer Trainee (Company Secretary) during training period is clearly mentioned under the 'Compensation Package' (refer Page 5 & 6) in advertisement no. CC/04/2020(B) dated 30 th June, 2020 referred by the applicant in the RTI application. However, the components of monthly salary of Assistant Officer Trainee are as follows: Basic Pay= Rs.40,000/- IDA @ 23.2% of Basic Pay w.e.f. 01.07.2021 HRA @ 24% of Basic Pay for 'X' Class City Perquisites and Allowances @ 12% of Basic Pay Further, statutory deductions on account of Income Tax, Provident Fund (PF) etc. are also made.
9	Basic pay of AOT-CS at the time of joining	
10	Pay protection rules of PGCIL in respect of AOT-CS.	No pay protection rules of PGCIL in respect of AOT-CS.
11	As on date, the evaluation sheet/marking criteria of interview/Group discussion.	Selection process for the subject post may be referred from the Advertisement No. CC/04/2020(B) dated 30 th June, 2020.

श्री सगर गुप्ता